



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 300]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 28, 1984/आषाढ़ 7, 1906

No. 300]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 28, 1984/ASADHA 7, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

उद्योग मंत्रालय  
(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली

नई दिल्ली, 28 जून, 1984

आर. केन्द्रीय सरकार को यह राय है कि लोकहित में  
यह समीचीन है कि उक्त आदेश 30 जून, 1985 तक की,  
जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और अवधि के लिए  
प्रभावी बना रहे।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और  
वित्तियमन) अधिनियम 1951 (1951 का 65) की  
धारा 18 का उपधारा (2) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त  
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त  
आदेश 31 दिसम्बर, 1984 तक की, जिसमें यह तारीख भी  
सम्मिलित है, और अवधि के लिए प्रभावी बना रहेगा और  
उक्त आदेश का निम्नलिखित रूप में संशोधन किया जाएगा।

उक्त आदेश में, जहाँ कहीं “चार वर्ष नौ मास और  
सत्ताईस दिन” शब्द आते हैं उनके स्थान पर “पाँच वर्ष  
तीन मास और सत्ताईस दिन” शब्द रखे जाएंगे।

का० आ० 471(अ):—भारत सरकार के उद्योग  
मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का०आ  
678 (अ), तारीख 3 दिसम्बर, 1981, का० आ० 645  
(अ), तारीख 2 दिसम्बर, 1982, का० आ० 630(अ),  
तारीख 3 दिसम्बर, 1983 और का० आ० सं० 951  
(अ), तारीख 31 दिसम्बर, 1983 के साथ पठित भारत  
सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग)  
के आदेश सं० का० आ० 511 (अ), तारीख 4  
दिसम्बर, 1979 द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त  
आदेश कहा गया है) इंडियन हेल्थ इन्स्टीट्यूट एण्ड लेबोरेटरी  
लिमिटेड, कलकत्ता नामक सम्पूर्ण औद्योगिक उपक्रम का  
प्रबन्ध उक्त आदेश में निर्दिष्ट प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा, 30  
जून, 1984 तक ही, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है,  
अवधि के लिए ग्रहण किया गया था;

[फा० सं० 2(22)/80-सी० यू० ए० सं०]

ए० पी० सरदन, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF INDUSTRY**  
(Department of Industrial Development)

**ORDER**

New Delhi, the 28th June 1984

S.O. 471(E).—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 511(E), dated the 4th September, 1979 (hereinafter referred to as the said Order), read with the Orders of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 678(E), dated the September, 1981, S.O. 645(E), dated the 3rd September, 1982, S.O. 630(E), dated the 3rd September, 1983 and S.O. 951(E), dated the 31st December, 1983, the management of the whole of the industrial undertaking known as the Indian Health Institute and Laboratory Limited, Calcutta, had been taken over by the Authorised Person referred to in the said Order, for a period upto and inclusive of the 30th June, 1984;

And, whereas, the Central Government is of the opinion that it is expedient in the public interest that the said Order should continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 31st December, 1984;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (2) of section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said Order shall continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 31st December, 1984 and that the said Order shall be amended as follows :

In the said Order, for the words "four years nine months and twenty seven days", wherever they occur, the words "five years three months and twenty seven days" shall be substituted.

[Fil No. 2(22)/80-CUS.]

A. P. SARWAN, Jt. Secy.